

## प्रेस नोट दिनांक-23.05.2021

(1). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 23.05.2021 एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़ में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम अमचुर नेरूआ में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बॉरों में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री प्रभूनाथ सिंह यादव तथा उनकी टीम द्वारा ओरा मोड़ के पास से अभियुक्त नीलमचन्द्र शुक्ला पुत्र अवध नारायण शुक्ला निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस

### बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री प्रभूनाथ सिंह यादव थाना पहाड़ी
2. आरक्षी प्रदुमन पटेल

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर के मार्गदर्शन में वरि030नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा डॉट पुल कस्बा मानिकपुर के पास से अभियुक्त राजकुमार यादव पुत्र छोटेलाल निवासी रानीपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 54 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

54 अदद क्वार्टर देशी शराब

### बरामदगी करने वाली टीम:-

1. वरि030नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी रामजी साहू

(4). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2037 थाना पहाड़ी अंतर्गत दिनांक 22/05/2021 को समय 15:38 बजे इवेंट संख्या 8615 द्वारा घटनास्थल पहाड़ी थाना पहाड़ी से कॉलर हरीश तिवारी द्वारा सूचना दी गयी कि बाइक से एक्सीडेंट हो गया है दो लोग घायल है ।

कृत कार्यवाही इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे रास्ते में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गई जिससे मोटरसाइकिल सवार दो लोग घायल हो गये है एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पीआरवी कर्मियों ने दोनो घायलो को पीआरवी वाहन द्वारा लाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी में भर्ती कराया। घायलो के घरवाले भी अस्पताल आ गये है । घटना के सम्बन्ध में थाना पुलिस को भी सूचना दी गयी ।

**पीआरवी स्टाफ:-**

कमांडर – मुख्य आरक्षी कौशल किशोर

सब कमांडर - आरक्षी वीरपाल सिंह

सब कमांडर - आरक्षी संजय कुमार